

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-01.09.2021

### अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 02 शातिर सदस्य थाना डिबाई व पीआरवी-2097 पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई 01 ईको कार बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई श्री सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई श्री सुभाष सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.08.2021 की शाम थाना डिबाई पुलिस क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि आरटी सेट द्वारा सूचना मिली कि दिल्ली से चोरी एक ईको कार जिसमें कुछ वाहन चोर सवार है, भीमपुर दोराहे की तरफ आ रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा भीमपुर दोराहे पर बैरियर लगाकर सतर्कता से चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद एक ईको गाड़ी आती दिखायी दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया अभियुक्तों द्वारा गाड़ी को रोंग साइड मोडकर छतारी की तरफ भागने लगे जिसकी सूचना पीआरवी-2097 को दी गयी। थाना डिबाई व पीआरवी-2097 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर घेराबंदी करते हुए उक्त ईको गाड़ी में बैठे दो अभियुक्तों को दिल्ली से चोरी ईको गाड़ी सहित समय करीब 17.00 बजे तेल डिपो के सामने ग्राम दानपुर अलीगढ़-अनूपशहर रोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों का एक अन्य साथी भागने में सफल रहा जिसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. ताज मौहम्मद पुत्र जान मौहम्मद निवासी मौहल्ला सहाबगंज कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूं  
हाल पता- राहत इन्कलेव मक्का मस्जिद के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
2. सुहैल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम पेपल थाना बिसौली जनपद बदायूं।

#### बरामदगी-

1. एक ईको गाड़ी नं0- डीएल-3सीसीटी-8054

गिरफ्तार अभियुक्तगण अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं जिनके द्वारा गाड़ियों को चोरी कर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। उक्त बरामद ईको गाड़ी को गिरफ्तार दोनो अभियुक्तगण द्वारा अपने फरार साथी के साथ मिलकर दिनांक 30/31.08.2021 की रात्रि में गली न0-2 सवापुर स्टेशन, बालाजी मंदिर के पास थाना सोनिया बिहार नार्थ ईस्ट दिल्ली से चोरी किया गया था तथा बेचने के उद्देश्य से बदायूं ले जाया जा रहा था। उक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना सोनिया बिहार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर मुअसं-023740/21 धारा 379 भादवि पजीकृत है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर मुअसं-509/21 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411 भादवि पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### थाना डिबाई पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई श्री सुभाष सिंह
- 2- उ0नि0 रुस्तम सिंह, का0 अनुभव कुमार, का0 अभय प्रताप, का0 विलियम सिंह, का0चालक है0का0 ब्रजराज सिंह

#### पीआरवी-2097 पुलिस टीम-

- 1- का0 अमित कुमार, का0 मोहन सिंह